


पैदल यात्री सुरक्षा के सुझाव



केवल चौराहों, चिह्नित क्रॉसवॉक और क्रॉसओवर पर ही पार करें ।

ब्लॉक के बीच में या पार्क की गई कारों के बीच में न जाएं जहां चालक को आपसे पार करने की उम्मीद नहीं है ।



सुनिश्चित करें कि चालक आपको पार करने से पहले देखते हैं ।
सड़क पर कदम रखने से पहले आंख से संपर्क करें - चालक विचलित हो सकते हैं ।



उज्ज्वल या परावर्तक कपड़े पहनना पैदल चलने वालों के लिए जोखिम कम कर सकता है , विशेष रूप से रात में या खराब मौसम में ।



सामान्य सुझाव



ओवर-द-काउंटर दवाएं और नशीली दवाओं के प्रभाव में ड्राइविंग, आपकी सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं ।


फार्मासिस्ट से पूछें अगर आपकी दवाएं ड्राइविंग के लिए सुरक्षित हैं ।




साइकिल चालक सुरक्षा सुझाव



18 वर्ष से अधिक उम्र के सवारों के लिए हेलमेट कानून नहीं है, लेकिन दृढ़ता से सिफारिश की जाती है।
हेलमेट पहनने से सिर की गंभीर चोट को रोका जा सकता है।



जब साइकिल चलाते हैं, तो आपको यातायात के समान ही चलना चाहिए।
वाहनों को सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति देने के लिए सड़क के दाहिने किनारे पर रखें।



साइकिल चालकों को सभी यातायात कानूनों का पालन करना चाहिए और उनके पास ड्राइवर्स के समान अधिकार और जिम्मेदारियां हैं।



साइकिल चालकों को अपनी साइकिल को घंटी / हॉर्न, रोशनी और परावर्तकों से लैस करना होगा।
परावर्तक कपड़े पहनने से यातायात को आपको अधिक देखने में मदद मिलेगी।